

सेवा में,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति,
माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज।

द्वारा—श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज।

द्वारा—श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
जनपद महोबा।

विषय—श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोबा द्वारा प्रदान की गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के विषय में प्रत्यावेदन।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद महोबा के द्वारा अवधारित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 के कॉलम चार में मात्र 10 मूलवाद को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने के आधार पर यह अंकित है कि “यह दर्शाता है कि ऑफिसर सिविल वाद के निस्तारण में रूचि नहीं ले रहा है।”

महोदय इस संबंध में निवेदन करना है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में सिविल प्रकृति के कुल 240 वादो का निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न सिविल वाद के सी0एल0–8 नक्शे के अनुसार कुल निस्तारित वाद 240 है, जिनमें—

| | |
|--|-----|
| 1. सिविल मूलवाद गुण–दोष के आधार पर..... | 10 |
| 2. सिविल मूलवाद समझौते व अन्य आधार पर..... | 94 |
| 3. लघुवाद..... | 01 |
| 4. रेंट (पिटीशन) वाद..... | 01 |
| 5. प्रकीर्ण सिविल वाद..... | 101 |
| 6. (i) इजरा वाद गुण–दोष के आधार पर..... | 03 |
| (ii) इजरा वाद (अन्य आधार पर)..... | 05 |

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा कुल सिविल वाद 215 निस्तारित किये गये है।

माननीय महोदय से यह भी निवेदन करना है कि उपरोक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल के 10 मूलवादों को समझौते के आधार पर भी निस्तारित किया गया है।

इसके अलावा प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में आपराधिक प्रकृति के कुल 703 वादो का निस्तारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न फौजदारी वाद सी0एल0–8 नक्शे के अनुसार कुल निस्तारित वाद 703 है, जिनमें—

| | |
|---|-----|
| 1. पुलिस चालानी के वाद..... | 474 |
| 2. अंतिम रिपोर्ट..... | 26 |
| 3. (i) परिवाद वाद गुण–दोष के आधार पर..... | 01 |
| (ii) परिवाद वाद (अन्य आधार पर)..... | 45 |
| 4. (i) दाण्डिक प्रकीर्णवाद | 78 |

(ii) दाण्डिक प्रकीर्णवाद (जमानत).....79

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा **कुल फौजदारी वाद 703 निस्तारित** किये गये हैं।

इसके अलावा माननीय महोदय से यह भी निवेदन करना है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी प्रविष्टि के क्रम संख्या-01(e)(III) में पांच वर्ष से अधिक प्राचीन 96 वादों का निस्तारण प्रार्थी के आत्मनिर्धारण प्रपत्र के आधार पर दर्शाया है।

माननीय महोदय से यह भी निवेदन करना है कि **प्रार्थी द्वारा देय यूनिट्स (रिक्वायर्ड यूनिट्स) 754.40 यूनिट्स के सापेक्ष 1395.16 यूनिट्स कार्य किया है। प्रार्थी के कार्य का कुल प्रतिशत 184.93 % है।**

इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने आत्मनिर्धारण प्रपत्र में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी के पास अन्य विभागीय प्रभार रहा है, जिनमें-

1. प्रभारी, सिविल जज (सी0डी0)/एफ0टी0सी0 जनवरी 2022 तक (कोर्ट रिक्त रही है।)

2. अध्यक्ष, पेंडामिक ग्रीवांस कमेटी कोविड-19

3.(i) प्रभारी अमीन, नोटरी व आयुक्त,

(ii) पूर्व प्रभारी, वाद कार्यवाही (इंचार्ज लिटिगेशन),

(iii) सदस्य, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी,

(iv) सदस्य, नवीन कोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण समिति,

(v) सदस्य, मिशनमोड प्रोग्राम,

(vi) सदस्य, स्टेयरिंग कमेटी,

(vii) सदस्य, प्रोन्नति कमेटी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,

(viii) सदस्य, स्क्रीनिंग कमेटी,

(ix) सदस्य, चयन समिति नोटरी, आयुक्त एवं सर्वे आयुक्त,

4. प्रधान न्यायाधीश जे0जे0 बोर्ड माह अगस्त तक,

5. विशेष मजिस्ट्रेट एम0पी0/एम0एल0ए0 कोर्ट।

प्रार्थी द्वारा कोविड-19 की द्वितीय लहर के प्रभावित माह अप्रैल, मई व जून के बावजूद भी यथासंभव अधिकतम वाद निस्तारित किये जाने का प्रयास किया गया है और आगे भी कर रहा है।

माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कॉलम संख्या-4 में की गयी टिप्पणी को समाप्त करने तथा प्रार्थी के आत्मनिर्धारण प्रपत्र में उल्लिखित उपरोक्त विवरण के आधारों पर गोपनीय प्रविष्टि को उच्चतर किये जाने की महती कृपा करे। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

सादर!

दिनांक-30.06.2022

संलग्नक-सी0एल0-8 नक्शा
(सिविल व फौजदारी)

भवदीय

(सुनील कुमार तृतीय)
सिविल जज (सी0डि0), महोबा।
यू0पी0-1826